

तेरे दर न कोई दरबार

चले पवन भी खुशबूधार ठंडी छाओ है तेरे दवार,
तेरे दर न कोई दरबार आके झुकता है सारा संसार,
झुकता है सारा संसार तेरे दर सा न कोई द्वार,

तेरे द्वार सुहे रंग उठे मन में रंग,
संतो भक्तो के संग नाचे मस्त मलंग,
हो रही चारो दिशाओ जय जय कार,
तेरे दर न कोई दरबार आके झुकता है सारा संसार,
झुकता है सारा संसार तेरे दर सा न कोई द्वार,

योगी भोगी दरवेश पाये ज्ञान उपदेश तुम्हे पूजते गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश,
वेद रचना पुराण युग चार,
तेरे दर न कोई दरबार आके झुकता है सारा संसार,
झुकता है सारा संसार तेरे दर न कोई द्वार,

मैया कल और आज मेरे मन पे तेरा राज,
तू सवारे सब के काज राखे भक्तो की लाज,
सिर जीवन फिरोज आये द्वार,
तेरे दर न कोई दरबार आके झुकता है सारा संसार,
झुकता है सारा संसार तेरे दर न कोई द्वार,

Source:

<https://www.bharattemples.com/tere-dar-na-koi-darbar-aake-jhukta-hai-sara-sansar/>



Bharat Temples

Complete Bhajans Collections - Download Free Android App

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.numetive.bhajans>

Facebook: <https://www.facebook.com/bharattemples/>

Telegram: <https://t.me/bharattemples>

Youtube: <https://www.youtube.com/channel/UC24oJCxZjyhhKzSUD-Lt9Tw>